#### **Universus Photo Imagings Limited**

(Formerly known as JINDAL PHOTO IMAGING LIMITED)

CIN: L22222UP2011PLC103611

Corp. Off.: Plot No. 87, Sector-32, Institutional Area, Gurugram Haryana -122001.

Tel: 91-0124-6925100 Website: www.universusphotoimagings.com

#### UPIL/DE-PT/SE/2023-24

To,

The Manager Listing

National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - 400 051

**Scrip Code: NSE: UNIVPHOTO** 

To,

The Manager Listing

**BSE** Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Date: 06<sup>th</sup>September, 2023

Dalal Street,

Fort, Mumbai - 400 001

Scrip Code: BSE: 542933

# <u>Sub: Newspaper Advertisement for dispatch of Notice of 12th Annual General Meeting (AGM) and e-voting and Book Closure information.</u>

Dear Sir,

Pursuant to Regulations 30 and 47 read along with Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Regulation"), please find enclosed herewith a copy of advertisement published on September 06, 2023 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) informing about completion of dispatch of Notice of the 12<sup>th</sup> Annual General Meeting, e-voting process and Book Closure related information.

This is for your information and records please.

Thanking you, Yours Sincerely, For Universus Photo Imagings Limited

SURESH KUMAR

Suresh Kumar Company Secretary

ACS: 41503 Encl:A/a 16

# RDB REALTY & INFRASTRUCTURE LTD.

CIN: L16003WB2006PLC110039 Regd. Office: Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor, Room No-10, Kolkata-700001, Phone: 033-4450 0500 Email id- secretarial@rdbindia.com; website- www.rdbindia.com

#### NOTICE OF THE 17TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 17th Annual General Meeting (AGM) of the Members of M/s. RDB Realty and Infrastructure Limited will be held on Thursday, the 28th day of September, 2023 at 11:30 A.M. (IST) through video conferencing ("VC") /Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business(es) as set out in the Notice dated 11th August, 2023. The AGM will be convened in compliances with the applicable provisions of

the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 'SEBI Listing Regulations') read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020, no. 17/2020 dated 13th April 2020, no. 20/2020 dated 5th may 2020, 02/2021 dated 13th January, 2021, no. 02/2022 dated 5th May, 2022 and no. 10/2022 dated 28th December, 2022 issued by the Minstry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI /HO/CFD CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020, SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2021/11 dated 15th January, 2021 SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") without the physical presence of the members at a common venue. The Company Pursuant to section 108 of the Act, and in compliance with the above circulars, has completed dispatch of the Notice of the AGM and Annual Report of the Company for the year ended 31st March 2023 Only by email on 05th September 2023, to all those members, whose email addresses are registered with the Company /Company's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) i.e., Niche Technologies Pvt. Ltd. or with their respective Depository Participants ("Depository"). The notice of the AGM as well as the Annual Report are also available on the Company's website https://www.rdbindia.com/annual-report/.

The Company pursuant to section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standard on General Meeting (SS-2) issued by the Institutes of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, members have been provided with facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using an electronic voting system (remote e-voting). The Company has engaged the services of NSDL for providing facility for remote e-voting, participation in the AGM through VC/OVAM and voting at the AGM. The voting rights of members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid- up equity share capital of the Company as on Thursday, 21st September, 2023 ("cut- off date").

The manner of remote e-voting and voting at the AGM by the members holding shares in the dematerialized mode, physical mode and for the members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of AGM

The remote e-voting commences on Monday, 25th September, 2023 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, 27th September, 2023 at 5.00 P.M. (IST). Members may cast their votes electronically during this period. The remote e-voting shall be disabled by NSDL thereafter. Those members who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM Once the vote on a resolution is cast by the member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend /participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again

Any person who becomes a members of the Company after dispatch of Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 21st September, 2023 may obtain the User ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in or nichetechpl@nichetechpl.com. However, if the member is already registered with NSDL for e-voting then he can use the existing user ID and password for casting the vote through e-voting. Members who have not yet registered their email addresses and phone number are requested to follow the process mentioned below:

) Members holding shares in physical mode are requested to updated their email addresses and phone number by writing to Registrar & Share transfer Agent (RTA) /Company at nichetechpl@nichetechpl.com and secretarial@rdbindia.com respectively, along with the copy of the signed requested letter mentioning the name, folio no., address of the member self -attested copy of PAN card and self-attested copy of any documents (e.g. Driving License, Bank Statement, Election Identity Card, passport, Aadhaar Card) in support of the address of the member.

Members holding shares in dematerialized mode are requested to register /update their email addresses and phone number with relevant Depository Participants

In case of any queries /grievance relating to remote e-voting or e-voting at the AGM, please refer to Frequently Asked Questions (FAQ) and e-voting user manual for the members available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact at toll free no. 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager or Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Limited, at the designated email IDs: amity@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or at telephone nos: +91-22-24994360 or +91-22-24994545.

By order of the Board Pradeep Kumar Pugalia

DIN: 00501351

Whole-time Director

Place: Kolkata Date: 05.09.2023

INDOFIL INDUSTRIES LTD.

# CIN: U24110MH1993PLC070713

Regd. Office: Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai- 400059, Tel. No.: (022) -66637373/(022)-28322272 Website: www.indofil.com

Notice is hereby given that the Thirtieth (30th) Annual General Meeting ("AGM") of Indofil Industries Limited ('the Company') will be held on Wednesday, September 27, 2023 at 11.00 a.m.(IST) through Video Conferencing("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") facility as per the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 and 21/2021 dated April 08 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021 and December 14, 2021 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars'), without the physical presence of the Members at a common venue to transact the business as set out in the Notice of AGM.

The dispatch of the Annual Report for the financial year 2022-23 along with the AGM Notice and E-voting procedure to the Members was completed on Tuesday, September 5, 2023

The Annual Report has been sent electronically to those members, whose email addresses were available with the Company's Registrar and Transfer Agent, MAS Services Limited, For the members, who have not registered their email addresses, the procedure for registering their email id has been provided in the Notice of AGM.

Notice is also hereby given, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members of the Company will remain closed from Thursday, 21 September, 2023 to Wednesday, 27 September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of ensuing AGM and

In terms of section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company is providing the facility to its Members to exercise their right to vote by electronic means on all of the businesses specified in the Notice convening the AGM of the Company (remote e-voting) and e-voting during the meeting through e-voting services of National Securities Depository Limited ("NSDL"). The details pursuant to the

- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date i.e. Wednesday, September 20, 2023 ('eligible Members'), can exercise their right to vote by using the remote e-voting and e-voting facility for all of the businesses specified in the Notice convening the AGM of the Company:
- The remote e-voting will commence on Sunday, September 24, 2023 at 9:00 a.m. (IST); The remote e-voting will end on Tuesday, September 26, 2023 at 5:00 p.m. (IST);
- The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter and once the vote on a resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again:

The Members can participate in the AGM even after exercising his right to vote through

- remote e-voting but shall not vote again in the AGM; The members, who remain present at the AGM and have not cast their vote through remote
- e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system available during the AGM Only a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e., September 20,
- 2023, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting in the AGM; In case the person becomes the Member of the Company after the dispatch of the AGM Notice but on or before the cut-off date i.e. Wednesday, September 20, 2023, may obtain the login ID and password by following the procedure prescribed in the Notice of AGM.
- password can be used for casting vote; The Notice of the AGM is available on the Company's website www.indofil.com and also on the NSDL's website www.evoting.nsdl.com

However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Mr. Amit Vishal at evoting@nsdl.co.in

The Board of Directors, at its meeting held on Tuesday, August 29, 2023, has recommended a dividend @100% i.e., ₹10/- per equity share of ₹10/- each and ₹3/- per equity share of ₹3/each for the financial year ended March 31, 2023. Dividend, if approved at the meeting, will be paid within a period of 30 days from the date of declaration, to those members whose names appear on the Register of Members on the close of Wednesday, September 20, 2023 subject to deduction of tax at source, wherever applicable,

Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable at the hands of shareholders w.e.f. 1st April, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to members at prescribed rates. For the prescribed rates for various categories the members are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments thereto. Members are also requested to refer to the Notice of the 30th AGM for more details on process to be followed, if The Company provides the facility to the Members for remittance of dividend directly in

electronic mode through National Automated Clearing House (NACH). Members holding shares in physical form and desirous of availing this facility of electronic remittance are requested to provide their latest bank account details (Core Banking Solutions Enabled Account Number, 9 digit MICR and 11 digit IFSC Code), along with their Folio Number, to RTA. Members holding shares in dematerialized form are requested to provide the said details to their respective Depository Participants. In line with the MCA circulars, in case the Company is unable to pay the dividend to any

shareholder by electronic mode, due to non-availability of their latest bank account details (Core Banking Solutions Enabled Account Number. 9 digit MCR and 11 digit IFSC Code), the Company shall dispatch the dividend warrant/cheque to such shareholders by post. The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the

Company and is in compliance with the MCA Circulars.

By order of the Board of Directors of Indofil Industries Limited Jayni Gada Company Secretary

# NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LTD. FE

CIN: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office: 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi - 110025, E-mail: cs@modisteel.net

Website: www.modisteel.com, Phone: 011-49872442, 19. PUBLIC NOTICE – 37TH ANNUAL GENERAL MEETING

This is to inform that the 37th Annual General Meeting ("AGM") of National General Industries Limited ("the Company") will be held through video conferencing (VC)/ other audio visual means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular dated December 28, 2022 read with Circular dated May 5, 2022, December 14, 2021 December 8, 2021, January 13, 2021, May 5, 2020, April 13, 2020 and April 8, 2020 and Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular (collectively referred to as Circulars), on Saturday, 30th September, 2023 at 1:30.P.M. to transact the business as set out in the Notice of AGM which will be sent in due

Members may further note that in pursuance of above stated circulars and in furtherance of Go-Green initiative of the government, the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2022-23, will be sent through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant. The members attending the meeting through VC or OAVM shall be counted for the purpose of quorum under section 103 of the Act. The Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices. The e-copy of the notice of the AGM along with the Annual Report for the FY

2022-23 of the Company will be available on the website of the Company at www.modisteel.com and also be available on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com, in due course of time The Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only.

Detailed instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of AGM. Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the AGM of the Company in person, to ensure compliance with the directives issued by MCA and SEBI. In case the email address is not registered with the Company / Depository

Participant, please follow the process of registering the same as mentioned

Physical Holding

Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, Skyline Financial Services Private Limited at info@skylinerta.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR ( Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address. Please send your bank detail with original cancelled

cheque to our RTA (i.e. Skyline Financial Services Private

Limited, D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-

I, New Delhi-110020 alongwith letter mentioning folio

no. if not registered already.) **Demat Holding** Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address as per the process advised by

Please also update your bank detail with your DP for

dividend payment by NACH if declared by company.

Members may also note that if your e-mail id is registered with the Company/Depository Participant, the login credentials for remote e-voting / e-voting during the AGM will be sent on the registered e-mail address along with the notice of AGM. However, members who have not registered their email-id can follow the procedure for registering e-mail id as mentioned above. Members may note that the detailed procedure for remote e-voting / evoting during the AGM is also mentioned in the notice of AGM.

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circular(s) and the SEBI Circular. For National General Industries Ltd

Place: New Delhi Date: 5th September, 2023

Vandana Gupta Company Secretary A-24012

#### ROYAL CUSHION VINYL PRODUCTS LIMITED Cin no: L24110MH1983PLC031395

"Shlok" 60 - CD, Govt. Industrial Estate, Charkop,

Kandivali (W), Mumbai - 400 067 Tel: + 91 22 28603514, 16 Website: www.rcvp.in; Email id:-legalho83@gmail.com **NOTICE TO MEMBERS** Notice is hereby given that the 39th (Thirty Nineth) Annual General Meeting

("AGM") of Royal Cushion Vinyl Products Limited ("the Company") will be held on Friday 29th September, 2023 through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members to transact the business as set out in the Notice dated 04th September, 2023, convening the said AGM. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and

the Rules framed thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13,2021, December 08,2021, December 14,2021, May 05,2022 and December 28, 2022 (collectively referred to as "MCA General Circulars") alongwith other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars') ,permitted the holding of AGM through VC/OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with these MCA General Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Company will be held through VC/OAVM. The Company has sent the Notice of the AGM alongwith the Annual Report for the financial year 2022-23 of which notice of the 39th AGM is a part have been sent in electronic mode to members whose email-ids are registered with the Company or Depository Participant(s). The requirements of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA circular/s and SEBI circular. The Notice of the 39th Annual General Meeting which is a part of the Company's Annual Report is uploaded on the website of the Company at www.rcvp.in and at BSE Limited at www.bseindia.com and also at website of the NSDL at www.evoting.nsdl.com

The Annual Report for the financial year 2022-23 of which the Notice of 39<sup>th</sup> AGM is a part is also available on the Company's website www.rcvp.in. Members who have not received the Annual report may download it from the Company's website or may request for an electronic copy of the same by writing to the company at the above mention email id.

Notice is further given pursuant to Regulation 42 of the Listing Regulations and Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) rules, 2014, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23<sup>rd</sup> September, 2023 to 29<sup>th</sup> September, 2023, both days inclusive for the purpose of AGM.

Pursuant to the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 the Company is pleased to provide its member with the facility to exercise their vote on the agenda items as stated in the notice of the Annual General Meeting by electronic means and the business may be transacted through the e-voting services provided by National Securities Depository Services Limited (NSDL) The details pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act,

2013 and the relevant Rules prescribed thereunder as follows: 1. The business may be transacted through voting by electronic means.

- Date and time of commencement of remote e-voting: Tuesday 26<sup>th</sup>
- September, 2023 (9.00 a.m.) Date and time of end of remote e-voting: Thursday 28th September, 2023
- (5.00 p.m.)Cut off date: Friday, 22<sup>nd</sup> September 2023.
- Any person, who acquires shares of the Company and has become member of the Company after dispatch of notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 22<sup>nd</sup> September, 2023 may obtain the login ID and password by sending an email to evoting @nsdl.co.in or Company/ Registrars by mentioning his Folio No./DP ID and Client ID no. However, if any member is already registered with NSDL for remote e-voting, then he can use his existing User Id and Password for casting his vote. If he forgets his password, he can reset password by using "Forgot User Details/Password" or "Physical User/Reset Password" option available
- 6. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 28th September, 2023.

on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following Toll Free no.

- The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM thru VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
- Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialised form as on the cut- off date of 22<sup>nd</sup> September, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as the Annual General Meeting. The voting rights of the members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company. The Company is also providing remote e-voting facility to its members in
- respect of the business to be transacted during the 39th AGM. Members may follow the same procedure for e-voting during the 39th AGM as mentioned above for remote e-voting. Only those Members, who will present in the 39th AGM through VC/OAVM Facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting system in the 39th AGM. 10. The Annual Report for the financial year 2022-23 of which the Notice of
- the 39th AGM is a part is also available on the Company's website www.rcvp.in and on the website of National Securities Depository Services Ltd.(NSDL) www.evoting.nsdl.com. 11. CS Padma Loya, Partner of M/s. Loya and Shariff, Practising Company
- Secretaries, Mumbai (Membership No.25349, COP no. 14972) have been appointed as Scrutinizer to scrutinize e-voting process in a fair and transparent manner. 12. The Shareholders may contact the undersigned for any grievances
- connected with electronic voting. Mrs. Deepti Parekh, Company Secretary

Royal Cushion Vinyl Products Limited "Shlok" 60 - CD, Govt. Industrial Estate, Charkop, Kandivali (W),

Dated: September 04, 2023

Place: Mumbai

Mumbai - 400 067; Email:legalho83@gmail.com; Tel no:022-28603514. By order of the Board of Directors for Royal Cushion Vinyl Products Limited

> **Mahesh Shah Managing Director** 00054351

## UNIVERSUS PHOTO IMAGINGS LIMITED

Registered Office -19th K.M Hapur Bulandshahr Road, P.O Gulaothi, Distt. Bulandshahr (UP). Corporate Office: Plot No. 87, Institutional Area Sector-32, Gurugram, Haryana-122001 CIN: L22222UP2011PLC103611

Email id- cs\_uphoto@universusphotoimagings.com; Website- www.universusphotoimagings.com Telephone No: 91-0124-6925100

NOTICE OF 12™ ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that 12" Annual General Meeting of Universus Photo Imagings Limited will be held on Friday, September 29, 2023 at 03:30 p.m. at Hotel Natraj, Kala Aam, Delhi Rd, Civil Lines, Bulandshahr, Uttar Pradesh 203001, to transact the ordinary and special businesses as set out in the Notice of the 12" AGM, in compliance with the applicable provisions of Companies Act 2013, and rules framed thereunder ("Act").

Pursuant to provision of section 101 and 136 of the Act and rules made thereunder, Regulation 36 of SEBI Listing Regulations and in terms or MCA Circulars and SEBI Circulars, Notice of the 12 AGM along with the Annual Report 2022-23 have been sent by e-mail on September 05, 2023. through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Further, Notice of the 12" AGM along with the Annual Report 2022-23 have been sent through

Courier, to those members whose email addresses are not registered with the Company Depositories, on September 05, 2023 Members may note that the Notice of the 12" AGM along with Annual Report 2022-23 will also be

available on the Company's website https://www.universusphotolmagings.com/investors.html,

websites of the Stock Exchanges, i.e., Bombay Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com respectively, and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("KFinTech") at https://evoting.kfintech.com/. Members who have not registered their email address are requested to register the same in espect of shares held in electronic form with the Depository through their depository participants

and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("KFinTech") Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32 Financial District, Nanakramguda Serilingampally Mandal Hyderabad, Telangana - 500032. As per section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management

and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations. 2015 and Secretarial Standards-2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the company is providing to its shareholders the facility to cast their votes through remote e-voting and voting at Venue of the 12" AGM on the all the resolutions set forth in the Notice, the detailed procedure of which is provided in the instruction part of the Notice. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the said cut-off

date i.e. Friday 22" September, 2023, may cast their vote electronically, in respect of the Resolution(s) as set out in the Notice of the 12" AGM through the remote e-voting or voting through ballot/polling paper during the 12" AGM. The remote e-voting facility shall commence from Tuesday, 26th September 2023 (9:00 A.M.) to

Thursday, 28° September 2023 (5:00 P.M.), same shall be forthwith disabled by KFIN after expiry of the said period. Once the Member have cast their vote through remote e-voting, he will not be allowed to modify his vote subsequently

Members may attend the 12" AGM even after casting their vote by remote e-voting facility but shall not be entitled to cast their vote again during the 12" AGM.

Those Members, who are present in the 12" AGM and have not cast their vote through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to avail the facility of voting hrough ballot/polling paperduring the 12th AGM n case a person has become member of the company after dispatch of the 12" AGM notice but on

or before the cutoff date for E-voting i.e. Friday, September 22, 2023, such members may obtain

the user ID and Password by sending a request in such a manner as provided in instructions part All the documents referred to in this Notice and the Explanatory Statement setting out the material facts thereof and the Statutory Registers, will be made available for inspection by the Company

and as such the Members are requested to send an email to

cs\_uphoto@universusphotoimagings.com requesting for relevant documents. In case of any query/ grievance relating to remote e-voting or voting through Ballot/polling paper at the 12" AGM, Members may refer to the help & Frequently Asked Questions (FAQs) and Evoting user manual available at the downloaded section of https://e-voting.kfintech.com (KFintech website) or contact D Suresh Babu, Senior Manager, KFin Technologies Private limited Selenium Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nankramguda, Serilingampally Mandal

SIN of the company is INE03V001013. All the members are requested to kindly get their shares. dematerialized

Hyderabad 500-032 or send an email to einward ris@kfintech.com or call on 1800 3094 001.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will be closed from Saturday, 23" September 2023 to Friday, 29" September 2023 (both days inclusive) in connection with the ensuing Annual General Meeting. By order of the Board of Directors

Universus Photo Imagings Limited Suresh Kumar

Company Secretary

ACS: 41503

Date: 05" September 2023



#### NOTICE OF 37" ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE OF MTNL

NOTICE is hereby given that the 37" Annual General Meeting ("AGM") of the members of MTNL will be held on Friday 29" day of September, 2023 at 11:30 A.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") as per provisions of the Companies Act, 2013, rules framed thereunder and SEBI (LODR) Regulations, 2015, read with Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circular dtd December 28, 2022 and SEBI Circular No SEBI/HO/CFD/ PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 (collectively referred as "Circulars"), to transact the businesses as detailed in the Notice of AGM dtd 31.08.2023. The venue of AGM shall be deemed to be the Registered Office of Company at Mahanagar Doorsanchar Sadan 5th Floor, 9 CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 003. In compliance to the Circulars, the Notice of 37th AGM and Annual Report 2022-23 have been sent on 04.09.2023, to all members (as per the Register of Members/List of Beneficial Owners as on the close of business hours on Friday, September 01, 2023) whose e-mail IDs are registered with the Depositories/RTA/ Company. The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.mtnl.net.in and on the website of Stock Exchanges. i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of evoting service provider i.e M/s Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.cdslindia.com. Members participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. NOTICE IS FURTHER given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act read with relevant Rules and Regulation 42 of SEBI (LODR), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 23, 2023 to Friday, September 29, 2023

The documents referred to in the Notice of AGM are available for inspection electronically without any fee to the members from the date of circulation of Notice of AGM up to the date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an e-mail to mtnlcsco@gmail.com mentioning their name, DP ID & Client ID/folio number and Permanent Account Number (PAN). Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) and Section 108 of the Act read with

relevant rules, the Company is pleased to provide e-voting facility to the members to exercise their right to vote on the businesses to be transacted at the 37" AGM through remote e-voting and e-voting at the AGM. The Company has engaged services of M/s CDSL as the agency to provide e-voting facility for the AGM. The members may cast their votes electronically through e-voting system of CDSL. All the members are informed that: a) The businesses as stated in the Notice of 37" AGM may be transacted

- through voting by electronic means; Members may attend the 37" AGM through VC/OAVM by using their remote
- The instructions for participating in AGM through VC/OAVM and the process
- of e-voting, including the manner in which members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address can cast their vote through e-voting, are provided in the Notice of AGM: The remote e-voting shall commence on 9:00 A.M. (IST) on Tuesday September 26, 2023 and will end at 5:00 P.M. (IST) on Thursday
- September 28, 2023 Remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M. (IST) on Thursday, September 28, 2023 and once the vote on a resolution is casted by the member, they shall not be allowed to change it subsequently: Members whose names appear in the Register of Members or List of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e.

Friday September 22, 2023, shall only be entitled to participate at the AGM

- and avail the facility of remote e-voting or e voting at the AGM. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member after sending of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e Friday September 22, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no.: 1800-225-533. The detailed procedure for obtaining user ID and password is also provided in the Notice of AGM. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and
- password can be used for casting vote. Members may note that: Members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast the vote again. Members who have not casted their vote through remote e-voting and are present in the AGM, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM. Members participating through VC facility shall be reckoned for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

For detailed instructions pertaining to electronic voting, members may please refer to the instructions given in the Notice of 37th AGM or visit www.cdslindia.com. Information and instructions including details of user id and password for e-voting have been sent to the members through e-mail. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC/OAVM. If you have any queries or issues regarding attending 37th AGM & e-voting from the CDSL e-voting System, you can write an email to <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> or contact at toll free no. 1800 22 55 33.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai -400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 22 55 33. (h) Members who have not registered their e-mail addresses so far, are requested to register it with their respective Depository Participant (DP) (in

case of electronic holding) or with Company (Email ID mtnlcsco@gmail.com)/ RTA (Email ID: beetalrta@gmail.com) (in case of physical holding) by providing necessary details like folio number, name of shareholder along with scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card), for receiving all communications including Annual Report, Notices etc. from the Company electronically. Members are also requested to update their bank particulars with respective DPs (in case of demat holding) and RTA/Company (in case of physical holding) to facilitate payments electronically. Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as a speaker by sending their request from their

registered e-mail address mentioning their name, DP ID and Client ID/folio

number, PAN, mobile number at mtnlcsco@gmail.com from Friday, September 15, 2023 to Friday, September 22, 2023. Those members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time and smooth conduct for the AGM. The results on resolutions shall be declared not later than 48 working hours of the conclusion of the AGM of the Company. The results declared along with the

Scrutiniser's report shall be placed on the website of the Company www.mtnl.net.in and on the website of M/s CDSL www.cdslindia.com for information of the members and would also be communicated to the Stock Exchanges. For & on behalf of Mahanagar Telephone Nigam Ltd.

PLACE: - NEW DELHI RATAN MANI SUMIT COMPANY SECRETARY DATE:- 06.09.2023

optiemus

Place: Noida

OPTIEMUS INFRACOM LIMITED CIN: L64200DL1993PLC054086

Registered Office: K-20, Second Floor, Lajpat Nagar - II, New Delhi-110 024 Corporate Office: D-348, Sector-63, Noida, Uttar Pradesh-201307 Website: www.optiemus.com | Email:- info@optiemus.com | Ph: 011-29840906

PRESS ADVERTISEMENT Notice is hereby given that the following Share Certificates have been reported as

ost/misplaced and the holder of such Share Certificates has applied to Company for

21391-21396

28169-28170

32

Any person(s) who has any claim(s) in respect of the above share certificate(s)

he issue of Duplicate Share Certificates: Folio Name of Certificate Distinctive No(s). No Shareholder(s) No. No(s). Shares 0001212 C V Ramesh 299-303 29121-29620 500 856-860 84821-85320 500 21313 2130401-2130500 100 2133601-2134000 21345-21348 400 2136501-2137200 21374-21380 700 21388-21389 2137901-2138100 200

should lodge such claim(s) with the Company 'Optiemus Infracom Limited' at its Corporate Office situated at D-348, Sector-63, Noida, Uttar Pradesh-201307 or write at info@optiemus.com within 15 days of the publication of this NOTICE, after which no claim will be entertained and the Company will proceed to issue the Duplicate Share Certificates. FOR OPTIEMUS INFRACOM LIMITED

Vikas Chandra

2138201-2138800

2816100-2816200

600

200

3,200

Date: 05th September, 2023

Company Secretary & Compliance Officer

#### EASTCOAST STEEL LIMITED CIN:L27109PY1982PLC000199

Registered Office: A-123, Royal Den Apartments, 16, Arul Theson Street, Palaniraja Udayar Nagar, Lawspet, Pondicherry - 605008 Website: www.eastcoaststeel.com | E-mail: esl.compliance@gmail.com Tel: 022 - 40750100 | Fax: 022 - 22044801

#### NOTICE is hereby given that the 40th Annual General Meeting ("AGM") of the members of

NOTICE OF 40" ANNUAL GENERAL MEETING

Eastcoast Steel Limited ("the Company") shall be held on Friday, September 29, 2023 at 03:00 p.m. through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") only, to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. Pursuant to the General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, and other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") read with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular no. SEBI/HO/ CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 ("SEBI Circulars"), the Company has sent the Notice of AGM along with the Integrated Annual Report for the Financial Year 2022-23 on September 06, 2023 through electronic mode only to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories/Registrar and Share Transfer Agent. The Integrated Annual Report of the Company for the Financial Year 2022-23, inter alia

containing the Notice and the Explanatory Statement of the AGM is available on the website of the Company at www.eastcoaststeel.com and can also be accessed from at relevant section of the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ("BSE") viz. www.bseindia.com. The AGM Notice is also available on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at <a href="https://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a>. Members are further informed as follows:

address with the Company are requested to update their e-mail addresses by submitting Form ISR-1 (available on the website of the Company www.eastcoaststeel.com) duly filed and signed along with requisite supporting documents to Link Intime India Private Limited at C-101, 247 Park, 1st Floor, L.B.S. Maro, Vikhroli (W), Mumbai - 400083:

1. Members holding shares in physical mode and who have not updated their e-mail

e-mail address with the relevant Depository Participants. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the AGM are

Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their

The Company has fixed Friday, September 22, 2023 as the as Cut-off date for letermining the members eligible to vote on all resolutions set out in the AGM Notice. Members are requested to carefully read the Notice of the AGM and in particular,

instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or

Place : Pondicherry Date: September 06, 2023

provided in the Notice of the AGM.

CUT-OFF DATE

voting at the AGM.

By Order of the Board of Directors For Eastcoast Steel Limited P. K. R. K. Menon

Company Secretary



#### Ph: (033) 2222-5227 E-mail: lahoti.a@balmerlawrie.com Website: www.blinv.com

AND E-VOTING INFORMATION The 22" Annual General Meeting (AGM) of the Members of Balmer Lawrie Investments Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 27" September, 2023 at 4:00 PM through Two - way Video Conferencing ("VC") or Other Audio-Visual Means ("OAVM") without the physical attendance of Members, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the allied Rules made thereunder, read with General Circular Nos. 14/2020 dated 8" April, 2020, 17/2020 dated 13" April, 2020, 20/2020 dated 5" May, 2020 &10/2022 dated 28" December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") in this regard (collectively referred to as "MCA Circulars") to transact the businesses set out in the

NOTICE OF THE 22<sup>NO</sup>ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

notice calling the AGM through voting by electronic means: The Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23 has been sent on 5" September, 2023 to shareholders holding the shares of the Company as on the cut-off date i.e. Friday, 18th August, 2023 (end of day) in the prescribed mode as per Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular bearing reference no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 read with SEBI Circular bearing reference no. - SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13" May, 2022 and SEBI Circular bearing reference no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5" January, 2023. The Notice and the Annual Report are also available on the website of the Company at https://www.blinv.com/, on the website of the Stock Exchange where the Equity Shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com and on the website of

facility) on https://www.evotingindia.com. The Company is providing to its Members the facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at 22" AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of CDSL on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available during the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. The detailed instructions regarding attending AGM and e-voting

Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") (Agency for providing the e-voting

is provided in the notice of the AGM. The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting: Saturday, 23" September, 2023 at 09:00 A.M. End of remote e-voting: Tuesday, 26" September, 2023 at 05:00 P.M.

e-voting or e-voting during the AGM. The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by CDSL upon expiry of the aforesaid period. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e., Wednesday, 20" September, 2023 (end of day), may cast their vote

A person whose name is recorded in the register of Members or in the register of

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Wednesday,

20" September, 2023 (end of day) only shall be entitled to avail the facility of remote

electronically. The Members who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses with the Company can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system provided during the AGM as per the instructions contained in

the aforesaid notice of the AGM. The Members of the Company who hold shares in physical form and have not registered their e-mail addresses with the Company are requested to contact the Registrar & Share Transfer Agent ("RTA"), CB Management Services Private Limited at P-22, Bondel Road, Kolkata - 700 019, e-mail - rta@cbmsl.com.

A Member may participate in the 22<sup>st</sup> AGM even after exercising his / her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. Any person, who has acquired shares and becomes a Member of the Company after the

dispatch of the Notice and holding shares as on cut-off date i.e., Wednesday,

20" September, 2023 (end of day) may obtain the login ID and password by sending a

request at rta@cbmsl.com. However, if he / she is already registered with NSDL or CDSL

may kindly follow the instructions for e-Voting stated in notice. Contact details: If you have any query or issue regarding attending AGM & e-voting from the CDSL e-Voting System, you can write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be

addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited

(CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi

Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an e-mail to helpdesk.evoting@ cdslindia.com or call toll free no. 1800 22 55 33. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday, 21" September, 2023 to Wednesday, 27" September,

2023 (both days inclusive).

Date: 6" September, 2023

Place: Kolkata

New Delhi

Upon declaration by the Members, dividend for the Financial Year 2022-23 shall be paid to those shareholders who are holding shares of the Company as on the cut-off date i.e., Wednesday, 20° September, 2023 (end of day) within the statutory time limit of 30 days from the date of such declaration.

Shri Navin Kothari, Proprietor of M/s. N K & Associates Practicing Company Secretaries,

(Membership No. FCS 5935 and Certificate of Practice No. 3725) has been appointed to

act as a scrutinizer for the e-voting process to ensure that the same is conducted in a fair and transparent manner. For BALMER LAWRIE INVESTMENTS LTD.

> Abhishek Lahoti Company Secretary

A25141

financialexp.epapr.in

Date: 06.09.2023

Place: Mumbai

17

#### **GDL LEASING AND FINANCE LIMITED** R.O.: B-3/91, Ashok Vihar, Phase II, New Delhi 110052

Tel.No. 011-27435354, Email Id: deepak.gangwani@yahoo.co.ir Website: www.gdl-finance.com CIN: 1,74899DL1994PLC057167 NOTICE OF 30" ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the 30" Annual General Mee ribers of the company will be held on Saturday, the 30" September, 2023. at 09.00 A.M. at Khasra No. 16/4, Palla Gaon, Delhi 110036 to transact the nesses mentioned in the Notice of said AGM, which has been dispatche

rough electronic mode to the Members on 04° September, 2023, along with Further, Pursuent to section 91 of the companies act, 2013 the register of memb and transfer book will remain closed from Saturday, 23" September, 2023 to ajurday, 30" September, 2023 (Both days inclusive) for the purpose of 30" AGM. n pursuance of section 108 of the Companies Act. 2013 read with rule 0 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as mended and Regulation of the SEBI (LODR), Regulation 2015, the Company is providing e-voting facility to its Members as provided by CDSL on all resolution as set out in the Notice of 30" AGM. Members of the empairy may transact the business through voting by electronic means. The remote e-voting facility commence at 09.00 a.m. on Wednesday, 2 all shareholders, whether holding shares in physical form or in dematerialize orm. The e-voting module shall be displayed by CDSL for Voting. Remoti

The cut-off date to determine eligibility to cast votes by electronic Voting is A person, who acquires shares and become shareholders of the compa

after dispatch of Notice and holding shares as of the cut-off date can do remote e-voting by obtaining login-lid and password by sending an e-mail to helpdask evoting@sdsåndia.com / admin@skyfinterta.com by mentioning their folio no JOP ID and Client ID No. However if such shareholder is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user id and password can be used for remote e-voting. 4. Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the

A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote a-voting, but shall not allowed vote again at the meeting

 Notice of 30° AGM is available on company website www.pd-finance.com 7.A person, whose name recorded in the register of members or in the September, 2023 shall be entitled to vote. In case you have any queries or issues regarding e-voting, kindly refer frequently asked questions & e-voting manual available at www.evotingindla.com

under Help section or Email helpdesk.evoting@cdslindla.com, Toll Free No 1900-200-5533 or Deepak Kumar Gangwani, Whole Time Director of the Company at deepak gangwari@yahoo.co.in/ 011-27435354 For GDL Leasing and Finance Limiter Deepak Kumar Gangwan

Whole Time Director / Chairman एपेक्स कैपिटल एवं फाइनेंस लिमिटेड

# कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L65910DL1985PLC021241

पंजीकृत कार्यालयः एल-3, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016 फ़ोनः +91-114034 8775, **फैक्सः** +91-11-40348775

APEX

ई-मेलः contact@apexfinancials.in, वैबसाइटः www.apexfinancials.in

### 38 वीं साधारण वार्षिक बैठक की सचना

एतद दवारा सचित किया जाता है कि एपेक्स कैपिटल एंड फाइनेंस लिमिटेड ("कंपनी") के सदरयों की 38 वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम"), 28 सितंबर, 2023 को दोपहर, 3.00 बजे, | एल —3, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली —110016 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो—विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") से कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 जिसको की कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए परिपत्र) और सेबी (सेबी परिपत्र) द्वारा समय–समय पर जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों के साथ पढ़ा जाता है, के अनुसार की जाएगी, जिसमें एक सामान्य स्थान पर सदस्य की भौतिक उपस्थिति नहीं होती है

कंपनी को अपने सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने तथा इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से एजीएम में वोट देने के अपने अधिकार की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है और एजीएम से |पहले और उसके दौरान व्यवसाय को दूरस्थ ई—वोटिंग के माध्यम से लेनदेन किया जाएगा। 22 सितंबर, 2023 तक शेयर रखने वाले सदस्य तथा जिन सदस्यों को कंपनी के साथ अपने | ईमेल पते की उपलब्धता नहीं होने के कारण वार्षिक रिपोर्ट की इलैक्ट्रॉनिक प्रति प्राप्त नहीं हो पाए, वे उपरोक्त समय–समय पर जारी किए गए विभिन्न एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए मतदान के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 लिंक के साथ एजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को इलैक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी से ई–संचार प्राप्त करने के लिए उन्हें कंपनी के साथ पंजीकृत करें।

ईमेल पता पंजीकृत करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए चरणों का पालन

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से नाम, फोलियो नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, शेयर | प्रमाण पत्र (दोनों पक्षों) की रकैन की गई प्रतियां, रव—सत्यापित पैन और आधार कार्ड को ईमेल के माध्यम से <u>contact@apexfinancials.in</u> पर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है।

डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से नाम, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी और क्लाइंट आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सेल्फ अटेस्टेड क्लाइंट मास्टर की स्कैन की गई कॉपी या कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट को ईमेल के माध्यम से contact@apexfinancials.in पर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है । नोटिस में यह भी सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी

(लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन हेतू, सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक्स 23 सितंबर, 2023 से | 28 सितंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी ।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ—साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 का विनियमन 44 के प्रावधानों का पालन करते हुए, कंपनी अपने सदस्यों को कंपनी की 38वीं एजीएम में प्रस्तावों को पारित करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डालने के लिए दूरस्थ ई—वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्यों कृपया

क. दरस्थ ई—वोटिंग सोमवार, 25 सितंबर, 2023 को सुबह 9.00 बजे शुरू होगी और बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी।

ख. दूरस्थ ई—वोटिंग बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को शाम 5.00 बजे के बाद उपलब्ध नहीं होगी। ग. एजीएम में दूरस्थ ई–वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि 22 सितंबर, 2023 है.

घ. कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 22 सितंबर, 2023 को शेयर रखता है, वह मैसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से डी-153 / ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020, दूरभाषः 011-26812682, 26812683, ईमेलः admin@skylinerta.com और सीसी compliances@skylinerta.com पर संपर्क करके

ङ. दूरस्थ ई–वोटिंग के जरिए अपना वोट डालने वाले सदस्य भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बोर्ड के आदेश द्वारा

कृते एपेक्स कैपिटल एंड फाइनेंस लिमिटेड

(फूल झा) कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 05.09.2023 आईसीएसआई एम. ACS 20850

युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।



# बी.एल. कश्यप एण्ड सन्स लिमिटेड

(CIN: L74899DL1989PLCO36148)

पंजीकृत कार्यालय : 409, चौथी मंजिल, डीएलएफ टॉवर-ए, जसोला, नई दिल्ली-110025 दूरभाष : 011-40500300, 011-43058345, फैक्स : 011-40500333 ई-मेल : info@blkashyap.com; वेबसाइट : www.blkashyap.com

34वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर तथा रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि एजीएम की सचना में निर्धारित साधारण एवं विशेष व्यवसाय के

निष्पादन के लिए 'कंपनी' की 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजीएम की सचना और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजी गई है जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं। ई-मेल के माध्यम से एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण मंगलवार, 05 सितंबर, 2023 को पूरा हो गया है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 कंपनी की वेबसाइट www.blkashyap.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की विबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2023 तक भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य एनएसडीएल के ई-वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सचित किया जाता है किः

क) एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है।

ख) रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी।

ग) इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान करने या एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की

कट-ऑफ तारीख शनिवार, 23 सितंबर, 2023 है। घ) 29 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे के बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट

ई-वोटिंग मॉड्युल अक्षम कर दिया जाएगा। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनमति नहीं दी जाएगी। ङ) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में

भाग ले सकते हैं. लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। च) केवल वे व्यक्ति जिनके नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं. रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

छ) कोई व्यक्ति, जो नोटिस भेजने के बाद शेयर हासिल करता है और कंपनी का शेयरधारक बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2023 को शेयर धारण करता है, वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए एजीएम की सचना में उल्लिखित निर्देशों का पालन करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

ज) 34वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक रविवार, 24 सितंबर, 2023 से शनिवार, 30 सितंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे। ई–वोटिंग की प्रक्रिया सदस्यों को भेजे गए एजीएम के नोटिस में उपलब्ध है। किसी भी प्रश्न के मामले में, आप https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for members तथा e-voting user manual for members का संदर्भ ले सकते हैं या वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रे, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013 से evoting@nsdl.co.in पर संपर्क

कर सकते हैं या टेलीफोन नंबर: 022 - 4886 7000 और 022 - 2499 7000 पर सम्पर्क कर एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग का परिणाम 2 अक्टूबर, 2023 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा। घोषित परिणाम, स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित

किया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट पर भी रखा जाएगा और स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया

जाएगा जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

www.readwhere.com

कते बी.एल. कश्यप एण्ड सन्स लिमिटेड

| दिनांक : 5 सितम्बर, **2023** | पुष्पक कुमार स्थान : नई दिल्ली

WE BUILD YOUR WORLD

वीपी एवं कम्पनी सचिव

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED (formerly Fullerton India Credit Company Limited) निगमित कार्यालय : 10वां तल, कार्यालय सं. 101, 102 एवं 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई-400051

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") और

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के प्रावधानों के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत और नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना(एं) निर्गत की थीं, जिनमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) को संबंधित सूचना(ओं) में अंकित राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता सकारण मानते हैं कि उधारकर्ता(गण) जो हैं वे मांग सचना(नों) की प्राप्ति कर भगतान करने के दायित्वों से बच रहे हैं, अतः उन तक सूचना पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना को नियमावली के अनुसार उनके ध्यानार्थ स्थान-स्थान पर चिपकाया जा रहा है और इसका प्रकाशन किया जा रहा है। मांग सूचना(ओं) की विषयवस्तु के निष्कर्ष यहां इसमें नीचे दिए गए हैं : मांग सूचना तिथि एवं राशि उधारकर्ता(ओं) के नाम

फैशन एयर फैब्रिक्स, खुदा बख्श खान, आलिया खान खाता सं.: 173020910700602 एवं 173020910737612

₹. 22,01,417 / -दिनांक 21.07.2023 के अनुसार

#### बंधककृत अचल संपत्ति/संपत्तियों का विवरण संपत्ति सं. 78 के समस्त वह भाग तथा अंश जिसका क्षेत्र माप 71 वर्ग मीटर है जो ब्लॉक बी-3, यमुना विहार दिल्ली 110053 में स्थित है।

उधारकर्ता(ओं) को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि मांग सूचना(ओं) का अनुपालन करें और वहां उन सूचनाओं में तथा यहां इसमें उपरोक्त तालिका में अंकित मांग राशि का, भुगतान की वसूली होने की तिथि तक गणनाकृत लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्कों, लागत और व्ययों के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों के अंदर भूगतान करें। उधारकर्ता(गण) यह ध्यान में रखें कि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट जो है वह एक प्रतिभूत ऋणदाता है और उधारकर्ता(ऑ) द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा जो है वह उधारकर्ता(ओं) द्वारा बंधक रखी गईं प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) के रूप में अचल संपत्ति / संपत्तियों के समक्ष एक प्रतिभूत ऋण है। इस प्रकरण में उधारकर्ता(गण) जो हैं वे चूंकि अनुबंधित समय के अंदर पूर्णरूपेण ढंग से अपने भुगतान दायित्वों का निर्वहन करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एसएमएफजी इंडिया क्रेंडिट प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) का अधिग्रहण करने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उपलब्ध समस्त अधिकारों का प्रयोग करने की अधिकारी होगी, जिसमें विक्रय के माध्यम से परिसंपत्तियों का हस्तांतरण अथवा अधिनियम एवं उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अधीन उपलब्ध किसी अन्य उपचार का उपयोग करना तथा भृगतान वसूल करना सम्मिलित होगा परंतु यह इतने तक ही सीमित भी नहीं होगा। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट जो है वह विक्रय अथवा हस्तांतरण करने के लिए अधिकार का प्रवर्तन करने से पूर्व प्रतिभृत परिसंपत्ति(यों) की कुर्की तथा/अथवा सील करने के लिए भी सशक्त है। प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) के विक्रय के उपरांत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के पास यह अधिकार भी है कि वह उस स्थिति में, शेष देयराशियों को वसूल करने के लिए पृथक विधिक कार्यवाहियां आरंभ कर सकती है, यदि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को भुगतानयोग्य देयराशियों का भुगतान पूर्ण करने के लिए बंधक संपत्तियों का मुद्रामूल्य अपर्याप्त होता है। यह उपाय एक अतिरिक्त उपाय है और किसी अन्य विधि—व्यवस्था के अंतर्गत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को उपलब्ध समस्त अन्य उपायों से अलग है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यानाकर्षण प्रतिभत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आमंत्रित किया जाता है तथा उस इसके अतिरिक्त उस स्थिति में अधिनियम की धारा 13(13) की ओर भी आमंत्रित किया जाता है, जिसके द्वारा उधारकर्ता(ओं) को एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) का निस्तारण करने अथवा उनका लेन–देन करने अथवा किसी भी प्रतिभृत परिसंपत्ति(यों) को बिक्री, पटटा के माध्यम से अथवा अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य क्रम के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से) हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित / निषेधित किया जाता है और उपरोक्त का गैर–अनुपालन जो है वह उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(ओं), यदि वे इच्छुक हैं, तो प्रतियां किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय समयावधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त कर सकते हैं। हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया क्रेडिट कं. लि.)



#### आईएम+ कैपिटल्स लिमिटेड सीआईएन: L74140DL1991PLC340407

पंजीकृत कार्यालयः 72. भूतल, यल्डं ट्रेड सेंटर, थावर रोड, कनॉट प्लेस,

आईएम+ कैपिटल्स लिमिटेड की 32वीं वार्षिक आम बैठक की सुचना रतदवारा **सूचना** दी जाती है कि आईएम+ कैपिटल्स लिमिटेड की **32वीं वार्षिक आम बैठक**।

**"एजीएम")** किसी सार्वजनिक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य ऑडियो विज्अल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को अपराह 03:00 बजे (आईएसटी), आयोजित की जाएगी

को उन सदस्यों को भेजी हैं जिनके ईमेल पते कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') 🖊 डिपोजिटरी के साथ सामान्य परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020 के अनुसार पंजीकृत है। इस सम्बन्ध में जारी किये गये बाद के परिपत्रों के साथ, नदीनतम परिपत्र दिनोंक 28 दिसम्बर 2022 है, जो कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी किया गया है और परिपत्र दिनांक 13 मई 2022 भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (''सेबी परिपत्र'' द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 5 जनवरी 2023 के साथ पढें। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 32वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट—www.imcapitals.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।

सदस्यगण केवल वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल तथा उपस्थित हो सकते है। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं । वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 103 के अंतर्गत कोरम के गणना की उद्देश्य के लिए की जाएगी ।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, 26 सितंबर 2023 (09:00 पूर्वाहन IST) से शुरू होगी और बृहस्पतिवार, 28 सितंबर 2023 (अपराहन 05:00 IST) को समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान, संदरय इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं । रिमोट ई–वोटिंग मापान्क को बृहस्पतिवार, 28 सितंबर 2023 अपराहन 5:00 बजे लिंक इनटाइम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निष्क्रिय कर मतदान के लिए लिंक इनटाइम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा

सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के केंवल एक तरीके का विकल्प चन सकते हैं अर्थात या तो एजीएम से पहले या एजीएम के दौरान। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल / भाग ले सकते हैं लेकिन पुन: वोट

संवीक्षक के रूप में नियक्त किया है।

पास ई—वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्यू') और इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ, हेल्प सेक्शन के अंतर्गत https://instavote.linkintime.co.in वेबसाइट पर ले सकते हैं या enotices@linkintime.co.in पर ईमेल भेज सकते है या दरभाषः 022 –4918 6000 पर संपर्क करे सकते है। बोर्ड के आदेशानसार

कृते आईएम+ कैपिटल्स लिमिटेड विशाल सिंघल

पूर्ण कालिक निदेशक

डीआईएन: 03518795

तिथिः ०५ सितम्बर २०२३ स्थानः दिल्ली

# यूनिवर्सेस फोटो इमेजिंग्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यातायः 19 के. एम. हापुड बुतन्दशहर रोड, पी. ओ. गुत्तीथी, जिला बुतन्दशहर (उ.प्र.) कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नंबर 87, इंस्टीटयुशनल एरिया, सेक्टर-32, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 सीआईएनः L22222UP2011PLC103611

टेलीफोन नंबर: 91-0124-6925100

# 12वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, खाता बंदी

रतदद्वारा सचित किया जाता है कि **यनिवर्सेस फोटो इमेजिंग्स लिमिटेड** की 12वीं वर्षिक जाम बैठक कंपनी अधिनियम 2013 ("अ**धिनियम**") के लागू प्रावधानों और नियमों के अनुपालन में, 12वीं एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट और उसके तहत निर्मित नियमों के अनुरूप, शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को दोषहर 03:30 बजे होटल नटराज,

काला आम, दिल्ली रोड, सिविल लाइन्स, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश 203 001 पर आयोजित की जाएगी अधिनियम की पारा 101 और 136 के प्रावधानों और उसके तहत निर्मित नियमों के अनुरूप, सेबी सूचीबद्धता विनियमनों के विनियम 36 और एमसीए परिपन्नों और सेबी परिपन्नों के अनुरूप, 12वीं एजीएम नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2022--23, उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से ईमेल द्वारा भेज दी गई हैं, जिनके ईमेल पते

इसके अतिरिक्त, वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 के साथ 12वीं एजीएम के नोटिस, उन सभी सदस्यों को क्रियर के माध्यम

सदस्यगण ध्यान दें कि वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 के साथ 12वीं एजीएम के नोटिस कंपनी की वेबसाइर https://www.universusphotoimagings.com/investors.html, स्टॉक एक्सचेंजी की वेबसाइटों यानी बीम्बे स्टॉक एक्सबेंज ऑफ इंडिया लिमिटेंड <u>www.bseindia.com</u> और नेशनल स्टॉक एक्सबेंज ऑफ इंडिया लिमिटेंड क्रमशः <u>www.nseindia.com</u> पर, और कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('कंफिन टेक') की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर भी उपलब्द होगी

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में और कंपनी के रजिस्टार और ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलींजीज लिमिटेड ("केफिनटेक") सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32 वितीय जिला, नानकरामगुडा सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद, तेलंगाना-500032 को लिखकर भौतिक रूप में रखे गए

कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के सह पठित कंपनी (प्रवंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के अनुसार, यथासंशोकित, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 44 और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज मीफ इंडिया द्वारा सामान्य बैतको पर जारी सचिदीय मानक-2 के अनसार कंपनी अपने शेवस्थारकों को लोटिस में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर 12वीं एजीएम के आयोजन स्थल पर रिमोट ई—वोटिंग और वोटिंग के माध्वम से वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है, जिसकी विस्तृत प्रक्रिया नोटिस के निर्देश भाग में प्रदान की गई है।

अंतिम तिथि अर्थात **शुक्रवार 22 सितंबर, 2023** तक मौतिक या डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर धारक सदस्य, नोटिस में निर्दिष्ट प्रस्ताव के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिमोट ई-बोटिंग या मतपत्र / मतदान पत्र के मध्यम से अपने वीट डाल सकते हैं।

रिमोट ई-बोटिंग की सुविधा मंगलवार, 26 सितंबर 2023 (प्रात: 9:00 बजे) से गुरुवार, 28 सितंबर 2023 (सांब: 5:00 बजे) तक जारी रहेगी, उक्त अवधि की समाप्ति के बाद केफिन द्वारा इसे तुरंत अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के मध्यम से अपना वोट ढाल देगा, तो उसे बाद में अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। सदस्य रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना वोट डालने के बाद भी 12वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं. लेकिन वे 12वीं एजीएम के दौरान दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वे 12वीं एजीएम के दौरान मतपत्र/मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा का लाभ चवाने के हकदार होंगे। इस नोटिस में उदिलक्षित सभी दरतायेज और उनके भीतिक तथ्यों और वैधानिक रजिस्टरों को निर्धारित करने वाले

व्याख्यात्मक विवरण कंपनी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे और सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि कर सकते हैं।

अनुरोध मेजकर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इस नोटिस में उल्लिखित सभी दस्तावेज और उनके भौतिक तथ्यों और वैधानिक रजिस्टरों को निधरित करने वाले व्याख्यात्मक वक्तव्य को कंपनी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध करत्या जाएगा और सदस्यों से अनुरोध है कि वे

बेऋनचीवजव / नदपज्रमतेनेचीवजवपर्धम्मे, बवस पर एक ईमेल मेजकर अनुरोध करें । प्रासंगिक दस्तावेजों के लिए 12वीं एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या मतपत्र/मतदान पत्र के माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न / शिकायत के मामले में, सदस्य https://e-voting.kfintech.com (KFintech website) या (केफिनटेक वेबसाइट) पर डाउनलोड किए गए अनुमान में उपलब्ध सहायता और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और <u>ई</u>—वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ लेने के लिए संपर्क करें या डी सुरेश बाबू, वरिष्ठ प्रबंधक, केंफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, रोलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31–32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, रोरिलिंगमपल्ली मंडल डैदराबाद 500–032 से संपर्क कर सकते हैं या <u>einward,ris@kfintech.com</u> पर एक ईमेल भेजें या 1800 3094 001 पर कॉल करें। कंपनी का आईएसआईएन INE03V001013 है। सभी सबस्यों से अनुरोध किया जाता है कि कृपया अपने शेयरों को

ढीमैटरियलाइज करवा लें। खाता बंदीः

आगामी वार्षिक आम बैठक के संबंध में कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर यक शनिवार, 23 सितंबर

स्थानः नई दिल्ली

देनांकः 05 सितंबर 2023

2023 से शुक्रवार, 29 सितंबर 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे। निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

कंपनी सचिव एसीएसः 41503

केआरए लिजिंग लिमिटेड

CIN: L65993DL1990PLC039637; Ph. No: 0124-4746817; E-mail: kraleasing1990@gmail.com; Website: www.kraleasing.com पंजीकृत कार्यालय: सी-20, एसएमए को–आपरेटीव इन्डस्ट्रियल इस्टेट,

जी० टी० करनाल रोड, दिल्ली-110033 कारपोरेट कार्यालय: प्लॉट न० ३, सेक्टर-11, आईएमटी मानेसर, गुड़गाँव-122050, हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत लागू प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवं सिक्योरीटीज एण्ड एक्सचेन्ज बौर्ड ऑफ इण्डिया ("सेबी") (लिस्टिंग दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के अनुपालन में एतदद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की चौतीसवीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित साधारण व्यवसाय निष्पादन कम्पनी की चौतीसवीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) शनिवार, सितम्बर 30, 2023, को दोपहर बजे विडियो कान्फ्रैसिंग (वीसी)/अन्य आडियो विजुवल माध्यम (ओएवीएम) द्वारा बिना सदस्यों की भौतिक उपस्थिति एक सामान्य स्थल पर आयोजित की जायेगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 91 के प्रावधानों के सम्बन्ध में कम्पनी के सदस्यों का पंजिका एवं शेयर हस्तांतरण किताबें 24 सितम्बर, 2023 से 30 सितम्बर, 2023 (दोनों दिवस शामिल कर) एजीएम के उदेय हेत बंद रहेंगी।

एजीएम की सचना एवं वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों जिनके ईमेल आईडीज कम्पनी के रिकार्ड में 5 सितम्बर, 2023 को उपलब्ध को इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा भेज दी गई हैं।

सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.kraleasing.com साथ ही में मैट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेन्ज https://www.msei.in पर उपलब्ध से डाऊनलोड की जा सकती है। सभी सदस्यों को सचित किया जाता है कि -

क) चौतीसवीं एजीएम में उल्लिखित साधारण व्यवसाय निष्पादन पर इलेक्ट्रानिक माध्यम

ख) रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 को (09:00बजे प्रातः) आईएसटी पर प्रारम्भ

ग) रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023 को (05:00बजे सायं) आईएसटी पर

घ) कृपया नोट करें कि उपरोक्त तिथि एवं समय के उपरान्त ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

ण) कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना के प्रसार के बाद कम्पनी का सदस्य बना हो और कट–ऑफ तिथि को शेयर धारण करता हो, यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए helpdesk.evoting@cdslindia.com अथवा kraleasing1990@gmail.com पर आग्रह भेज सकता है। हालाँकि, यदि व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल पर पहले से ही पंजीकृत है तो वोट देने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। सदस्य नोट करें:

उपरोक्त तिथि एवं समय के उपरान्त वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉडयूल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा और सउस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के

सदस्य को फिर से बदलने की अनुमति नहीं होगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा एजीएम से पहले अपना वोट दे दिया है, चौतीसवीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम की सुविधा द्वारा भाग ले सकते हैं लेकिन एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा फिर से वोट देने के हकदार नहीं होंगे।

iii) एजीएम में भाग लेन वाले सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग सिस्टम द्वारा अपना वोट नहीं दिया है, ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा एजीएम के दौरान वोट देने के हकदार होंगे। iv) एक व्यक्ति जिसका नाम कट—ऑफ तिथि i.e. 23 सितम्बर, 2023 को सदस्यों की

पंजिका/लाभदाई स्वामी की पंजिका में अंकित होंगे, बैठक में रिमोट ई-वोटिंग के साथ वोटिंग की सुविधा के हकदार होंगे। ं उन शेयरधारकों जिनके ईमेल आईडीज डिपॉटरीज के पास पंजीकृत नहीं हैं, इस सूचना में निर्धारित प्रस्ताओं पर ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त

भौतिक माध्यम में शेयर धारित फोलियो न०, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी (आगे और पीछे), पैन (स्वअभिप्रमाणित पैन कार्ड की स्कैन कॉपी), आधार (स्वअभिप्रमाणित आधार कार्ड की स्कैन कॉपी) को ईमेल द्वारा पर कृपया investors@skyllinerta.com प्रदान करें।

करने और ईमेल पंजीकरण प्रक्रियाः

कम्पनी सचिव को संम्बोधित कर सकते हैं।

डीमैट माध्यम में शेयर धारित डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंको वाला डीपीआईडी+ सीएलआईडी अथवा 16 अंको वाला लाभदाई आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता कथन, पैन (स्वअभिप्रमाणित पैन कार्ड की स्कैन कॉपी), आधार (स्वअभिप्रमाणित आधार कार्ड की स्कैन कॉपी) को investors@skyllinerta.com प्रदान करें। ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा अपना वोट देने के लिए कृपया http://www.evotingindia.com पर जाएँ। डिमैटरीलाइज माध्यम, भौतिक माध्यम द्वारा शेयरधारित सदस्य और जिन्होंने

अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए रिमोटली वोटिंग सिस्टम ("रिमोट

**ई-वोटिंग**") द्वारा वोट देने का तरीका एजीएम की सूचना में दिया गया है। जिसका विवरण कम्पनी की वेबसाइटwww.kraleasing.com और सीडीएसएल की वेबसाइट http://www.evotingindia.com पर साथ में उपलब्ध है। इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम द्वारा वोटिंग की सविधा साथ में एजीएम ("एजीएम ऐप लिंक") पर उपलब्ध कराई जायेगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा नहीं दिया है, वे एजीएम में जूम लिंक द्वारा वोट दे पायेंगे। **ई-वोटिंग द्वारा** वोट देने के लिए लॉगइन साख सदस्यों को ईमेल द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। जिन सदस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं होता है अथवा जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉटरीज भागीदार

निर्देश दिये गये हैं। उसी लॉगइन साख का उपयोग एजीएम में वीसी/ओएवीएम द्वारा भाग लेने के लिए किया जा सकता है। चूँकि कोई अंतिम लाभांष नहीं है, लाभांष के प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। सदस्य कम्पनी को, यदि आवश्यकता है, वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि के लिए आग्रह कर सकते हैं। रिमोट ई–वोटिंग को मिलाकर एजीएम में ई–वोटिंग से सम्बन्धित किसी प्रश्न अथवा शिकायत के लिए kraleasing1990@gmail.com पर नाम:- सूश्री प्राशी सक्सेना, पद:-

के पास पंजीकृत नहीं हैं, लॉगइन साख जनरेट करने के लिए एजीएम की सूचना में

कृते केआरए लिजिंग लिमिटेड दिनांक : 05.09.2023 प्राशी सक्सेना

स्थान : गुरूग्राम सदस्यता संख्या: A66481 यूनिटेक लिमिटेड

unitech CIN: L74899DL1971PLC009720 **पंजी. कार्यालयः** ६, कम्युनिटी सेंटर, साकेत, नई दिल्ली- 110 017 **कॉर्पोरेट कार्यालयः** 13वां तल, सिग्नेचर टावर्स, टॉवर-बी,

साउथ सिटी-1, गुरुग्राम-122007 टेली /फॅक्स: 011.26857338 ई—मेल; share.dept@unitechgroup.com | वेबसाइट; www.unitechgroup.com

52वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एतदद्वारा सचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 52वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के नोटिस दिनांक 29 अगरत, 2023 में वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित यथा निर्धारित बिजनेस के संचालन के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और इसके अधीन बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण उत्तरदायित्व और प्रकटन अपेक्षाए) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") के सभी लागू प्रावधानों, कार्पोरेट मामले मंत्रालय ('एमसीए') तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी परिपत्रों के साथ पठित, के अनुपालन में शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को प्रात: 11.00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य अव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए आयोजित की जाएगी। वीसी / ओएवीएम के जरिए वार्षिक आम बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों के लिए सुचना और अनुदेशों का उल्लेख वार्षिक आम बैठक के नोटिस की टिप्पणियों में किया गया है। अधिनियम की घारा 103 के तहत कोरम का पता लगाने के उददेश्य से वीसी / ओएवीएम के जरिए वार्षिक आम बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों की

कार्पोरेट मामले मंत्रालय और सेबी के परिपत्रों के अनुरूप, वार्षिक आम बैठक का नोटिस और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न किये जाने हेत् अपेक्षित अन्य दस्तावेज ई-मेल के जरिए कम्पनी के उन सभी सदस्यों को प्रेषित कर दिए गए हैं जिनके ई-मेल पते 25 अगस्त, 2023 को कंपनी अथवा डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.unitechgroup.com पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों अर्थात क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं, और वहां से इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। वार्षिक आम बैठक का नोटिस नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com

अधिनियम की धारा 108, इसके अधीन बनाए गए संगत नियमों और सूचीकरण विनियमों के विनियम 44 के साथ पठित, में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को 52वीं वार्षिक आम बैठक में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है और विजनेस का संचालन एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के जरिए संचालित किया जा सकता है। ई-वोटिंग की सुविधा वार्षिक आम बैठक में भी उपलब्ध कराई जाएगी। वार्षिक आम बैठक में उपस्थित सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग पहले नहीं किया है, वार्षिक आम बैठक में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ वार्षिक आम बैठक की तिथि को ई-वोटिंग प्रणाली एनएसडीएल द्वारा www.evoting.nsdl.com पर

रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता के निर्धारण के लिए कट-ऑफ तिथि 22 **सितंबर, 2023** है। कोई व्यक्ति, केवल जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपाजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-बोटिंग की सुविधा, वीसी / ओएवीएम के जरिए एजीएम में सहभागिता और / अथवा एजीएम में ई-वोटिंग करने का हकदार होगा।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को प्रातः 9.00 बजे (भारतीय मानक समय) आरंम होगी और बृहस्पतिवार, 28 सितंबर, 2023 को अपराह्न 5.00 बजे (भारतीय **मानक समय) समाप्त होगी।** उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति

भौतिक पद्धति अथवा डीमैटीरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारण करने वाले सदस्यों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग तथा उन सदस्यों के लिए, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराए हैं. तरीके वार्षिक आम बैठक के नोटिस में उपलब्ध कराए गए है।

कोई व्यक्ति, जो वार्षिक आम बैठक के नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर धारण कर लेता है और कंपनी का सदरय बन जाता है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात 22 सितंबर, 2023 को शेयर धारण कर लेता है. वह एजीएम के नोटिस में यथा वर्णित रिमोट ई–वोटिंग / एजीएम में ई–वोटिंग हेत् समान अनुदेशों का पालन कर सकता है, यद्यपि, यदि सदस्य पहले ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मौजूदा लॉगिन आईडी / यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। लॉगिन आईडी / यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया वार्षिक आम बैठक

सदस्य, जो कि वार्षिक आम बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग से पहले ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, वार्षिक आम बैठक में शामिल हो सकते हैं, परंतु वे पून: एजीएम में मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

अधिनियम की धारा 91 और सूचीकरण विनियमों के विनियम 42 के अनुसरण में, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स शनिवार 23 सितंबर, 2023 से शुक्रवार 29 सितंबर, 2023 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे। 0.सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने नाम, डाक पता, ई-मेल पता, दूरभाष / मोबाइल नंबरों,

बैंक के नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, आदि से संबंधित परिवर्तनों, यदि कोई है, के बारे में सचित कर दें। (क) भौतिक स्वरूप में धारित शेयरों के लिए; कंपनी के आरटीए को – कंपनी की वेबसाइट www.unitechgroup.com पर उपलब्ध सेबी मास्टर परिपन्न सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी2 / सर्क् / पी / 2023 / 120 दिनांक 11 जुलाई,

2023 के अनुसरण में निर्धारित फार्म आईएसआर-1 और अन्य संगत फार्मों में सूचित (ख) डलेक्टॉनिक स्वरूप में धारित शेयरों के लिए: केवल अपने डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट को

11.इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों से मतदान से जुड़ी किसी भी शिकायत अथवा किसी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध शेयरघारकों के लिए बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यूज) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा 022-48867000 और 022-24997000 पर कॉल करें अथवा सुश्री पल्लवी महात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें।

2013 ( "अधिनियम" ) और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेवी ( सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ ) विनियम, 2015 के लागु प्रावधानों के अनुपालन में ( सेवी ( एलओडीआर ) विनियम ), सामान्य परिपन्न संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के साथ पहुँ, इसके बाद सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, और बाद में जारी किए गए परिपत्र इस संबंध में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (''एमसीए परिपत्र'') और परिपत्र संख्या संबी /एचओ /सीएफडी / सीएमडी । सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और उसके बाद इस संबंध में जारी परिपन्न, नवीनतम परिपन्न संख्या SEBI/H0/CFD/ PoD-2/P/CIR/2023/4 विनांक ०५ जनवरी, २०२३ है जो भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किया गया है (''सेबी परिपन्न''), एजीएम के नोटिस में निर्धारित अनुसार सामान्य व्यवसाय करने के लिए, सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थित के बिना।एजीएम का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा यानी ए-2, विपक्ष उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर RJ 302005 IN

वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के निर्देश और एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग

एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें 31 मार्च, 2023 को

समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (''वार्षिक रिपोर्ट'') शामिल हैं उन सभी सदस्यों को

में भाग लेने और ई-बोटिंग प्रणाली के माध्यम से बोट डालने के तरीके एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं।

काँटिनेंटल पेट्रोलियम्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ए-२, उद्योग भवन के सामने, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपर-302005 ( राजस्थान )

CIN: L23201RJ1986PLC003704, फोन: 0141-2222232

ई: मेल: cs.conpetco@gmail.com, conpetco@gmail.com, वेबसाईट: www.contol.in

37 वीं वार्षिक आम बैठक की सुचना एवं ई-वोटिंग की सुचना

सचना दी जाती है कि कॉन्टिनेंटल पेटोलियम्स लिमिटेड( ''कंपनी'') के सदस्यों की 37 वीं वार्षिक आम बैठक

ऑडियो-विजुअल माध्यम ( ''ओएवीएम'' ) सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी, कंपनी अधिनियम,

''एजीएम'') गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 को 03.00 बजे IST वीडियो कॉन्फ्रेसिंग (''वीसी'') / अन्य

इलंक्ट्रॉनिक मोड में भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनी या रजिस्टार और शंधर ट्रांसफर एजेंट या संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण मंगलवार, 05 सितंबर, 2023 को पूरा हो गया है । नोटिस की प्रति एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.contol.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम में लेन-देन किए जाने वाले व्यवसाय की वस्तओं से संबंधित दस्तावेज सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे, जैसा कि एजीएम के नोटिस के नोट्स अनुभाग में बताया गया है। सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को उपर्यंक्त एमसीए परिपन्नों और सेबी परिपन्नों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है । एजीएम को दौरान रिमोट ई-बोटिंग और ई-बोटिंग को निर्देश: कंपनी ( प्रबंधन और प्रशासन ) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के

अनुपालन में, संबी ( एलआंडीआर ) विनिधम के विनिधम 44, कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक-2 भारत सरकार, कंपनी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ( एजीएम से पहले ) और ई-बोटिंग सुविधा ( एजीएम के दौरान ) के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित सामान्य व्यवसाय पर बांट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है ( एजीएम के दौरान ) । गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 को कट-ऑफ तिथि होने पर भौतिक रूप में चा डीमटेरियलाइन्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य www.evotingindia.com पर सीडीएसएल के रिमोट ई-वांटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वांट डालेंगे ।

a ) रिमोट ई-वॉटिंग सोमवार, 25 सितंबर , 2023 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी IST और बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को शाम 05:00 बजे IST पर समाप्त होगा ।

b ) कोई भी व्यक्ति जो वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना भेजने और कट-ऑफ तिथि के अनुसार शंयर रखने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है, एजीएम की सुचना में उल्लिखित निर्देशों का पालन करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है वा www.evotingindia.com पर अनुरोध भेज रहा हैं । हालाँकि, यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है, तो सदस्य अपने मौजूदा युजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है और अपना बांट डाल सकता है।

 अपर्युक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-बोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा।एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर बोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने

सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, हालांकि, वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-बोटिंग सुविधा के माध्यम से दोबारा बोट डालने के हकदार नहीं होंगे; c ) एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है,

गए लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज है, केवल बीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए रिमोट-ई-बोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। एजीएम के दौरान ओएबीएम सुविधा और ई-बोटिंग;और ह) चुँकि, एजीएम बीसी/ओएबीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए एमसीए परिपत्र के

अनुसार प्रॐवसी नियक्तकरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी । तदनुसार, सदस्य द्वारा प्रॉक्सी की नियक्ति

वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सचना कंपनी की वेबसाइट www.contol.in, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, जिस पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और सेंट्ल डिपॉजिटरी सर्विसेज ( इंडिया ) लिमिटेंड की वंबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है ।

जानं वालं प्रश्न (''एफएक्य्'') और ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं। www.evotingindia.com पर जिन सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के संबंध में प्रश्न/शिकायतें हैं या जिन्हें एजीएम से पहले या उसके दौरान प्रौद्योगिकों के उपयोग से सहायता की आवश्यकता है, वे कर सकते हैं a ) निर्दिष्ट ई-मेल पते पर अनुरोध भेजें: helpdesk.evoting@cdslindia.com या टोल फ्री नंबर पर कॉल

b ) श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, ( सीडीएसएल, ) सेंट्ल डिपॉजिटरी सर्विसेज ( इंडिया ) लिमिटेड, ए

विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूबरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल

रिमोट ई-बोटिंग और ई-बोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो, निदेशक मंडल ने श्री रोहित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंपनी ( प्रबंधन और प्रशासन ) नियम, 2014 ( संशोधित ) कं नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार दूरस्थ दोनों के लिए जांचकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नियक्त

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सचना और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देशों और एजीएम

इस संबंध में सभी संचार /प्रश्नों को बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्टार और

में रिमोट ई-बोटिंग या ई-बोटिंग प्रणाली के माध्यम से बोट डालने के तरीके को ध्यान से पहें। वास्ते- कॉटिनेंटल पेटोलियम्स लिमिटेड

सिबली इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN - L17111UP1988PLC009594 पंजीकृत कार्यालयः पवनपुरी, मुरादनगर, गाजियाबाद-201206 (यू.पी.)

संपर्क सूत्र:- 01232 - 261521 वार्षिक साघारण समा की सूचनाः

एतदहारा सूचित किया जाता है कि सिबली इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की 35वीं वार्षिक साधारण समा शनिवार, दिनांक 30 सितम्बर, 2023 को पूर्वान्ह 11:30 बजे पंजीकृत कार्यालय पवनपुरी, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद-201206 (यू.पी.) पर वार्षिक एजीएम के नोटिस दिनांक 14 अगस्त 2023 में वर्णित सामान्य व विशेष कार्य को सम्पन्न करने के लिए होगी। एजीएम की बैठक की सूचना व्याख्यात्मक विवरण सहित एवं 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट समेत पृथक रूप से इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा उन सभी सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है, जिनके ईमेल एडेस कम्पनी/डिपाजिटरी पार्टीसिपेंट/रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास पंजीकृत हैं। अन्य सभी सदस्यों को जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं. उन्हें एजीएम नोटिस की प्रति भौतिक रूप से स्वीकृत माध्यम द्वारा उनके पंजीकृत पतों पर भेजी जा चुकी है। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट (www.sybly.com) और सीडीएसएल की वेबसाईट https://www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के लिए कंपनी ने सेंट्रल डिपाजिटरी सिक्योरिटीज लि0

इस संबंध में सदस्य कृपया ध्यान दें: (i) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108, जिसे कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20, यथा संशोधित के साथ पठित एवं सेबी (एलओडीआर) रेगुलेशन 2015 के नियम 44 के अनुपालन में वार्षिक साधारण सभा के नोटिस में वर्णित कार्यवाही को इलैक्टानिक माध्यमों द्वारा वोटिंग से संपंन्न कराया जा सकता है। कंपनी को अपने सभी शेयर धारकों को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग एवं एजीएम स्थल पर वोटिंग हेत् शेयर होल्डरों के निर्धारण हेत् कट-आफ तिथि शनिवार, 23 सितम्बर 2023 है जिन सदस्यों के पास कट-आफ तिथि को कागजी अथवा डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर हैं, वे सीडीएसएल के इलैक्ट्रोनिक वोटिंग सिस्टम, जो https://www.evotingindia.com है, पर एजीएम स्थल के अलावा

अपना वोट दे सकते हैं। होगी और 29 सितम्बर 2023 (शुक्रवार) को 5.00 बजे सायं पर समाप्त हो जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सीडीएसएल द्वारा २१ सितम्बर २०२३ (शुक्रवार) को 5.00 बजे साय पर बंद कर दी जाएगी और उपरोक्त तिथि व समय के उपरांत वोटिंग की छूट नहीं होगी। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार

अपनी वोट डाल देने के बाद सदस्य को उसमें बदलाव का अधिकार नहीं होगा। (iv) कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना प्रेषित कर दिए जाने के पश्चात शेयर प्राप्त करके कंपनी का शेयरधारक बनता है एवं कट-आफ तिथि 23 सितम्बर, 2023 (शनिवार) को शेयरधारक हो, वे ई-वोटिंग के लिए अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) से या सीडीएसएल से निम्न संपर्क से हासिल कर सकते हैं: दूरमाष संख्याः 022-23058738 व 022-23058542-43, ई–मेल आई ढीः helpdesk.evoting@cdslindia.com, beetal@beetalfinancial.com

(v) मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा एजीएम स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी। (vi) कोई भी सदस्य अपने मताधिकार का रिमोट ई-वोटिंग द्वारा इस्तेमाल करने के उपरांत भी एजीएम में शामिल हो सकता है। लेकिन उसे एजीएम में अपना वोट

मतदान करने की सविधा का लाभ लेने के अधिकारी होंगे जिनके नाम कट-आफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपाजिटरीज द्वारा रखे जाने वाले बेनिफिसियल आनर्स के रजिस्टर में दर्ज होंगे। कंपनी की वार्षिक साधारण सभा के नोटिस को http://www.sybly.com/wp-

content/uploads/2023/09/Notice\_35TH-AGM\_SYBLY.pdf से भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए सदस्य एफएक्यू (FAQ) और सदस्यों के ई-वोटिंग

युजर मैनुअल को देख सकते हैं। जो www.evotingindia.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध है। रिमोर्ट ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य टोलफ्री नं. 1800225533 पर कॉल कर सकते हैं अथवा श्री आनन्द तिरोडकर, श्री देबोश्री चौधरी, सीडीएसएल, ट्रेंड वर्ल्ड, फिरोज जीजीबाई टॉवर्स, 17वां तल दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001 से अधिकृत ई-मेल आईडीजः helpdesk.evoting@cdslindia.com या दूरमाष संख्याः (022) 23058615, (022) 23058634 फैक्स: (022) 23002043 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रानिक रूप में सर्विसिंग को सक्षम करने के लिए अपना ई-मेल पता उपलब्ध कराने/अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के रिकार्ड को अद्यतन करने के लिए अनुरोध कंपनी या आरटीए को भेजा जाना चाहिए और डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों के मामले में डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट को भेजा जाना चाहिए।

वार्षिक साधारण सभा उपरोक्त सभा स्थल पर कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा जारी एसओपी/एडवाईजरी/नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग नियमों व अन्य सुरक्षा प्रोटोकाल मसलन फेस मास्क, हैंड सेनेटाईजेशन आदि का कडाई से पालन करते हुए होगी।

वास्ते-सिबली इंडस्टीज लिमिटेड ह0/- (सागर अग्रवाल)

स.सं: ए57936

कंपनी ने 32 वीं एजीएम की सचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सोमवार, 04 सितंबर, 2023

दिया जाएगा और उसके बाद सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की अनुमति। नहीं दी जाएगी। एजीएम के दौरान रिमोट ई—वोटिंग मापान्क बैठक के समापन के 15 मिनट बाद

निदेशक मंडल ने सुश्री चेतना भोला, कंपनी सचिव इन प्रैक्टिस, सदस्यता संख्या A41283 और C.P. सं. 15802. को रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए यदि शेयरघारक / सदस्य भौतिक रूप में प्रतिमृतियों को धारण करते हैं या संस्थागत शेयरघारकों के

ईमेल आईडी: cs\_uphoto@universusphotoimagings.com; वेबसाइट: www.universusphotoimagings.com

एवं ई-वोटिंग सूचना

कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ 05 सितंबर, 2023 तक पंजीकृत हो गये हैं।

से भी भेजे गए हैं जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ 05 शिलंबर, 2023 तक पंजीकृत हो गये हैं।

वे सदस्य. जो 12वीं एजीएम में तपस्थित हैं लेकिन उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के मध्यम से अपना वोट नहीं डाला है

वे <u>cs\_uphoto@universusphotoimagings.com</u> पर ईमेल भेजकर प्रासंगिक दस्तावेओं की मांग का अनुरोध यदि कोई व्यक्ति 12वीं एजीएन नोटिस के प्रेषण के बाद, लेकिन ई-वोटिंग के लिए अंतिम विधि यानी शुक्रवार, 22 सितंबर 2023 से पहले कंपनी का सदस्य बन गया है। , ऐसे सदस्य नोटिस के निर्देश भाग में दिए गए तरीकें से

> यनिवर्सेस फोटो इमेजिंग्स लिमिटेड सुरेश कुमार

स्थानः मुख्याम **(中: 06.09.2023**)

के नोटिस में भी उपलब्ध कराई गई है।

9. एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 52वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य के लिए,

स्थाई खाता संख्या ("पैन") अधिदेशों, नामांकन, पावर ऑफ अटानी, बैंक विवरण जैसे कि

और कंपनी के आरटीए को नहीं

कृते यूनिटेक लिमिटेड

(अनुराधा मिश्रा) कंपनी सचिव

सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि:

b ) जो सदस्य एजीएम से पहले ही रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, वे वीसी/ओएबीएम

वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डालने के हकदार होंगे; d ) एक व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए

रिमोट ई-बोटिंग, एजीएम में शामिल होने और एजीएम के दौरान ई-बोटिंग की प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में दी गई है ।ई-बोटिंग प्रणाली से एजीएम और ई-बोटिंग में भाग लेने के संबंध में किसी भी प्रश्न या समस्या के मामले में, आप ई-बोटिंग वेबसाइट के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे

( पूर्व ), मुंबई - 400013 से संपर्क करें ; और

कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट को beetal@beetalfinancial.com पर ई-मेल के माध्यम से संबोधित किया जान

मदनलाल खण्डेलवाल ( अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ) DIN: 00414717 दिनांक : 05.09.2023

ई—मेल: sybly@rediffmail.com, info@sybly.com, वेबसाइट: www.sybly.com

('सीडीएसएल') के साथ व्यवस्था की है।

कराते हुए प्रसन्नता है।

अन्य स्थान से भी इलैक्ट्रानिक माध्यम से अथवा मतपत्र द्वारा एजीएम स्थल पर (iii) रिमोट ई-वोटिंग 27 सितम्बर 2023 (बुघवार) को 10:00 बजे प्रातः प्रारम्भ

पनः डालने की छट नहीं होगी।

(vii) केवल वही सदस्य एजीएम स्थल पर मतपत्र द्वारा अथवा रिमोट ई-वोटिंग द्वारा

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में और हरित पहल के एक भाग के रूप में, कंपनी सदस्यों को नोटिस/दस्तावेजों/वार्षिक रिपोर्ट की

तिथि: 05 सितम्बर, 2023 कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी स्थानः मुरादनगर